

## छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर जी.एस.टी परषिद की बैठक में ट्रब्यूनल में दो न्यायिक सदस्य एवं दो तकनीकी सदस्य रखे जाने पर बनी आम सहमति

### चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2023 को वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री नरिमला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जी.एस.टी परषिद की बैठक में छत्तीसगढ़ की ओर से ट्रब्यूनल में दो न्यायिक सदस्य एवं दो तकनीकी सदस्य (एक राज्य और एक केंद्र) रखे जाने के प्रस्ताव पर परषिद में आम सहमति बनी।

### प्रमुख बिंदु

- इससे सहकारी संघवाद का समुचित ध्यान रखते हुए राज्यों को भी उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा। राज्यों को उनके भौगोलिक एवं अन्य परिस्थितियों के आधार पर ट्रब्यूनल के बेंच की संख्या का निर्धारण का अधिकार भी होगा।
- वदिति है कि जी.एस.टी. परषिद की 49वीं बैठक नई दिल्ली स्थित वजिज्ञान भवन में आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी व अन्य राज्यों के वित्तमंत्री, अधिकारीगण तथा छत्तीसगढ़ आयुक्त, वाणज्यिक कर भीम सहि भी शामिल हुए।
- यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के वाणज्यिक कर मंत्री टी.एस. सहिदेव द्वारा रखा गया था। छत्तीसगढ़ द्वारा कषतपूर्ति की राशि शीघ्र प्रदान करने की मांग की गई। केंद्र शासन द्वारा 505 करोड़ रुपए कषतपूर्ति राशि तत्काल दिये जाने का नरिणय लिया गया।
- बैठक में मुख्य मुद्दा जी.एस.टी. अपीलीय अधिकरण (ट्रब्यूनल) का रहा। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मद्रास बार एसोसिएशन के प्रकरण में टीएनजीएसटी के ट्रब्यूनल संबंधी प्रावधान को अवैधानिक घोषित करने के पश्चात् अधिकरण संबंधी प्रावधान पर पुनर्विचार हेतु मंत्री समूह का गठन किया गया था। इस मंत्री समूह का प्रतिविदन बैठक में प्रस्तुत किया गया।
- तेंदूपत्ता पर जी.एस.टी. की दर को शून्य करने के उड़ीसा के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ ने यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया। पूर्व में परषिद की 22वीं एवं 37वीं बैठक में दर अपरविरतनीय रखने के नरिणय एवं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के अभिमित के आधार पर यथास्थिति बनाए रखने का नरिणय लिया गया।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के कारण तेंदूपत्ता संग्राहकों को देश भर में सर्वाधिक लाभ प्रदान किया जाता है। अधिकतम लाभ अंतरित किये जाने से कर का भार संग्राहकों को वहन नहीं करना पड़ता है साथ ही तेंदूपत्ता पर आरसीएम (रिवर्स चार्ज) होने से भी कर का भार शासन द्वारा वहन किया जाता है।
- भारतीय किसान संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा कर का भुगतान करने के पश्चात् खरीदे गए खाद, कृषियंत्र आदि पर ऐसे आगत कर किसानों को भी देने (जैसा कि अन्य नरिमाताओं को दिया जाता है) का प्रस्ताव दिया गया।
- गौरतलब है कि आगत कर की पात्रता, पंजीयन एवं कर योग्य वकिरय होने पर ही होती है। पंजीयन एवं कर योग्य वकिरय नहीं होने पर किसानों की आगत कर की पात्रता नहीं है। अतः छत्तीसगढ़ की ओर से इस प्रस्ताव को रूपांतरित कर किसानों द्वारा उपयोग किये जा रहे समस्त सामग्रियों को जी.एस.टी. से सरकार मुक्त रखने का प्रस्ताव परषिद के समक्ष रखा गया, जिससे वचिरार्थ फटिमेंट कमटी को प्रेषित किये जाने हेतु अनुशंसा की गई।